



थाना रामगढ़ जनपद फिरोजाबाद दिनांक 08-12-2022

थाना रामगढ़ / एसओजी व सर्विलांस की टीम द्वारा थाना एका क्षेत्र के हिस्ट्रीशीटर बदमाश सतेन्द्र उर्फ छोटू को चोरी के ट्रैक्टर व अवैध असलाह सहित पुलिस मुठभेड के दौरान किया गया गिरफ्तार ।

➤ गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध दर्ज है चोरी व हत्या सहित 16 मुकदमे ।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा जनपद मे चोर, लुटेरों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर के निर्देशन मे एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना रामगढ़ , एसओजी एवं सर्विलांस की टीमों द्वारा थाना आज दिनांक 08-12-2022 को एक बदमाश सतेन्द्र उर्फ छोटू उर्फ विकास पुत्र राजवीर सिंह निवासी नगला भजन थाना एका जनपद फिरोजाबाद को यूपीएसआईडीसी क्षेत्र में मुठभेड के दौरान गिरफ्तार किया गया । मुठभेड के दौरान बदमाश सतेन्द्र उर्फ छोटू के दाहिने पैर में गोली लगी है । गिरफ्तार बदमाश से एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक ट्रैक्टर मैसी चोरी का (जलेसर थाना क्षेत्र से) बरामद हुआ है । गिरफ्तार अभियुक्त थाना एका से हिस्ट्रीशीटर है, जिसका HS संख्या 45(A) है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के आधार पर थाना रामगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का संक्षिप्त विवरण:-

आज दिनांक 08-12-2022 को थाना रामगढ़ की पुलिस टीम चनौरा पुल पर चैकिंग कर रही थी । तभी मुखबिर द्वारा सूचना दी गयी कि कल दिनांक 07-12-2022 को थाना जलेसर क्षेत्र से चोरी हुये ट्रैक्टर के साथ थाना एका का हिस्ट्रीशीटर अभियुक्त कहीं जा रहा है । मुखबिर की सूचना पर थाना रामगढ़, एसओजी एवं सर्विलांस की टीमों द्वारा अभियुक्त का पीछा किया गया तो अभियुक्त सतेन्द्र उर्फ छोटू ने ट्रैक्टर यूपीएसएसआईडी क्षेत्र की झाडियों में मोड दिया । पुलिस टीम द्वारा पीछा किया तो अभियुक्त द्वारा पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया । पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में गोली चलायी गयी जो अभियुक्त के दाहिने पैर में लगी ।

नाम पता गिरफ्तारशुदा अभियुक्त -

1. सतेन्द्र उर्फ छोटू उर्फ विकास पुत्र राजवीर सिंह निवासी नगला भजन थाना एका जनपद फिरोजाबाद ।

बरामदगी का विवरण:-

1. एक तमंचा 315 बोर, एक खोखा कारतूस 315 बोर, एक जिंदा कारतूस 315 बोर, एक ट्रैक्टर मैसी चोरी का (जलेसर थाना क्षेत्र से चोरी हुआ) ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास ।

1. मु अ स 99/19 धारा 379 भादवि, थाना घिरोर, मैनपुरी ।
2. मु अ स 57/19 धारा 302/395/394/411 भादवि, थाना रजावाली, फ़िरोज़ाबाद ।
3. मु अ स 366/17 धारा 307/147/148/149/412/413/414 भादवि, थाना एका, फ़िरोज़ाबाद ।
4. मु अ स 392/17 धारा 392/395/412/413/414 भादवि, थाना एका, फ़िरोज़ाबाद ।
5. मु अ स 35/18 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना एका, फ़िरोज़ाबाद ।
6. मु अ स 328/17 धारा 395/412/413/414 भादवि, थाना एका, फ़िरोज़ाबाद ।
7. मु अ स 91/19 धारा भादवि, थाना नारखी, फ़िरोज़ाबाद ।
8. मु अ स 15/19 धारा 274/397/412 भादवि, थाना सिरसागंज, फ़िरोज़ाबाद ।
9. मु अ स 37/19 धारा 379/411 भादवि, थाना बसई अरेला, आगरा ।
10. मु अ स 388/19 धारा 411/414 भादवि, थाना नारखी, फ़िरोज़ाबाद ।
11. मु अ स 813/22 धारा 379 भादवि, थाना सिरसागंज, फ़िरोज़ाबाद ।
12. मु अ स 455/19 धारा 2/3 गैंगेस्टर एक्ट, थाना सिरसागंज, फ़िरोज़ाबाद ।
13. मु अ स 466/22 धारा 379 भादवि, थाना जलेसर, एटा ।
14. मु अ स 227/22 धारा 379 भादवि थाना पचोखरा, फ़िरोजाबाद ।
15. मु अ स 367/17 धारा 25 आर्म्स एक्ट थाना एका, फ़िरोजाबाद ।
16. मु अ स 392/17 धारा 392/395/412 भादवि थाना एका फ़िरोजाबाद ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. निरीक्षक श्री रवि त्यागी प्रभारी थाना रामगढ़ फ़िरोजाबाद ।
2. उ0नि0 श्री नितिन त्यागी प्रभारी सर्विलांस सेल फ़िरोजाबाद ।
3. उ0नि0 श्री उमेश कुमार थाना रामगढ़ फ़िरोजाबाद ।
4. उ0नि0 श्री योगेश नागर थाना टूण्डला फ़िरोजाबाद ।
5. मु0आ0 अमित चौहान, मु0आ0 करनवीर सिंह, आरक्षी रघुराज सिंह, आरक्षी अनिल कुमार, आरक्षी प्रवीन कुमार, आरक्षी देवेन्द्र सिंह सर्विलांस सेल फ़िरोजाबाद ।
6. आरक्षी पवन कुमार, आरक्षी दिलीप कुमार, आरक्षी प्रेम कुमार, आरक्षी योगेश कुमार, आरक्षी उग्रसेन एसओजी फ़िरोजाबाद ।
7. आरक्षी लव कुमार, आरक्षी योगेन्द्र, आरक्षी गौरव, आरक्षी खजान थाना रामगढ़ ।